

प्रेस नोट दिनांक 20.07.2022

थाना सिरौली जनपद बरेली

अपहर्त व्यक्ति ने अपने भाईयों के साथ मिलकर रची अपने अपहरण की साजिश, जिसका थाना सिरौली द्वारा अपहर्त व्यक्ति को बरामद कर अपहरण की रची घटना का किया खुलासा ।

दिनांक 18.07.22 को श्री जयप्रकाश पुत्र नरेश निवासी हरदासपुर थाना सिरौली जनपद बरेली ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर मेरे छोटे भाई लेखराज जो गुलडिया गौरी शंकर डिग्री कालेज में पेपर देने गया था जिसको मेरे गाँव लोगो ने पीटा है तथा उसे गायब कर दिया है जिसके सम्बन्ध में मु0अ0स0 254/22 धारा 323/364 भा0द0वि0 बनाम वीरेन्द्र पुत्र बाबू राम , अरविन्द पुत्र टीकाराम , जय हिन्द पुत्र काशीराम निवासी ग्राम हरदासपुर थाना सिरौली बरेली के विरुद्ध पंजीकृत किया गया घटना के सही तथ्यों के जाने के लिये व अपहर्त बरामदगी के हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी आँवला के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सिरौली जनपद बरेली के नेतृत्व मे थाना हाजा पर टीम का गठन किया गया टीम द्वारा आज दिनांक 20.07.22 अपहर्त व्यक्ति को कोतवाली रानीपुर जिला हरिद्वार से बरामद किया क्योंकि उसने वहाँ पर भी डायल 112 पर उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा अपने अपहरण कर हरिद्वार छोडकर चले जाने की बात कही थी अपहर्त के पास मोवाईल व चार्जर व आधार कार्ड तथा कुछ पैसे मिले पुलिस की सूझवूझ व कडी मेहनत से अपहर्त व्यक्ति को बरामद कर स्वयं अपने मुकदमा वादी भाईयो व मुमेरे के साथ अपने अपहरण की झूठी साजिश रचने का का सही खुलासा किया जिसमें धारा 323/364 भादवि बनाम वीरेन्द्र आदि उपरोक्त के नामों का विलोपन कर तथा वृद्धि धारा 193/195 भादवि मुकदमा वादी जयप्रकाश पुत्र नरेश निवासी हरदासपुर थाना सिरौली जनपद बरेली ,लेखराज पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम हरदासपुर थाना सिरौली जनपद बरेली लेखराज पुत्र गयाप्रसाद निवासी ग्राम पुत्रापुर थाना आँवला जनपद बरेली के नाम प्रकाश में आये । अपहर्त व्यक्ति से पूछताछ के दौरान घटित घटना का विवरण निम्न है:-

**पूछताछ:-**

लेखराज उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे परिवार के ही जय हिन्द, विनोद पुत्र काशीराम व अरविन्द पुत्र टीकाराम व वीरेन्द्र पुत्र बाबूराम से जमीन के बटवारे का मुकदमा तहसील में चल रहा है, इसी बात को लेकर दिनांक 15.07.22 को दोनो तरफ से झगड़ा हो गया था। जिसके सम्बन्ध में दोनो पक्षों के एनसीआर पंजीकृत की गयी थी तथा एनसीआर नं0 05/22 मेरे भाई जय प्रकाश, खुबकरन, मेरे पिता नरेश पाल व मेरे खिलाफ लिखायी गयी थी। तभी से मैने मेरे भाई जयप्रकाश व मेरे ममेरे भाई लेखराज पुत्र गयाप्रसाद निवासी पुरनापुर थाना आवला बरेली ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि इन लोगों को किसी बड़े केस में फँसाये तब ये लोग हम से मजबूर होकर फैसला कर लेगे मेरा दिनांक 18.07.22 को बी.ए द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र का पेपर गुलडिया गौरी शंकर डिग्री कालेज में था । मैं अकेला मोटर साईकिल से निकला पहले जवाहर लाल लोधी डिग्री कालेज एडमिट कार्ड लेने गया फीस जमा न होने के कारण एडमिट कार्ड नहीं मिला उसके बाद मैने मोटर साईकिल हरदासपुर से थोड़ा आगे शनि देव

मन्दिर के पास सड़क के किनारे खड़ी कर दी मेरे पास एक नोट बुक था जिस पर मैंने एक पत्र लिखा कि आकाश, जयहिन्द, विनोद व चार लोग ओर मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने अपने बाए हाथ में ब्लेट से खरोचे मारकर उससे जो खून निकाल वह अपनी शर्ट उतार कर शर्ट को फाड़ कर जगह-जगह खून के धब्बे लगाकर मोटर साईकिल पर रख दी नोट बुक, मॉडल पेपर व पत्र भी मोटर साईकिल पर ही रख दिया था। उसके बाद मैंने अपने मोबाईल फोन से अपने ममेरे भाई को बताया था कि तुम मेरे घर वालों को व पुलिस वालों को फोन करके बता दो कि मेरा अरविन्द, वीरेन्द्र व जयहिन्द अपहरण करके बुलेरों गाड़ी में डालकर अपहरण कर के ले गये है, थाने जाकर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराओं। उसके बाद मैं सबारी से आवला पहुँचा आवला से चन्दौसी होता हुआ मुरादाबाद पहुँचा मुरादाबाद से रात में ट्रेन में बैठकर हरिद्वार पहुँचा हरिद्वार फैक्ट्री एरिया में मैंने वहाँ की पुलिस को कल कॉल करके सूचना दी कि मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ डाल गये है तब हरिद्वार की 100 नं० की पुलिस मुझे ले करके चौकी इन्डस्ट्रियल एरिया थाना रानीपुर हरिद्वार लेकर गये थे फिर मैंने अपने घर पर भी फोन किया था। इन लोगों को फँसाने के लिए मेने ये षडयंत्र अपने भाईयो के साथ मिलकर रचा था। मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया था और न ही मेरे साथ कोई मारपीट की गयी।

### **साजिश कर्ता / गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता:-**

1. जयप्रकाश पुत्र नरेश निवासी हरदासपुर थाना सिरौली जनपद बरेली
2. लेखराज पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम हरदासपुर थाना सिरौली जनपद बरेली
3. लेखराज पुत्र गयाप्रसाद निवासी ग्राम पुत्रापुर थाना आँवला जनपद बरेली

### **गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम:-**

1. उ०नि० श्री मोदी सिंह
2. का० 1438 सुरेश चन्द
3. का० 2989 संजय सिंह

### **अपराधिक इतिहास जयप्रकाश पुत्र नरेश निवासी हरदासपुर थाना सिरौली जनपद बरेली**

1-मु०अ०स० 254/22 धारा 323/364/193/195 भादवि थाना सिरौली जनपद बरेली

### **अभियुक्त लेखराज पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम हरदासपुर थाना सिरौली जनपद बरेली**

1-मु०अ०स० 254/22 धारा 323/364/193/195 भादवि थाना सिरौली जनपद बरेली

### **अपराधिक इतिहास अभियुक्त लेखराज पुत्र गयाप्रसाद निवासी ग्राम पुत्रापुर थाना आँवला जनपद बरेली**

1-मु०अ०स० 254/22 धारा 323/364/193/195 भादवि थाना सिरौली जनपद बरेली